

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अगस्त 2010—श्रावण 20, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. एफ ए-3-19-09-1-पांच—शुद्धि-पत्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-19-2009-1-पांच(60) दिनांक 18 मई 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 287, दिनांक 18 मई 2010 में पृष्ठ क्रमांक 573 से 574(16) तक प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाता है :-

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं (2)	शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति
(4)	574	27
(4-क)	574	28
अधिकार	574(1)	23
10-क	574(3)	6
(4-क)	574(4)	20
(4)	574(9)	8
(4-A)	574(9)	9
partal	574(10)	6
particulares	574(11)	33
(4-A)	574(12)	22
(14) After form 10, (TDS, RAO and challan amount) DECLARATION (Employee ID;)	574(15)	16 to 26
	574(16)	1 to 24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.